



दिल्ली पब्लिक स्कूल, गांधीनगर

शैक्षिक सत्र 2021-22

Competition : कथा पुरानी अंदाज़ नया	Date : 03-09-2021
Venue : Online	Class : III

कथा पुरानी अंदाज़ नया - प्रतियोगिता

उद्देश्य -

- विद्यार्थियों को कहानी कथन कौशल के लिए प्रेरित करना जिससे कहानी विधा के प्रति अपनी रुचि बनाए रखें।
- विद्यार्थियों में सम्प्रेषण क्षमता का विकास करना।
- विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं समूह में बोलने की क्षमता का विकास करना।
- विद्यार्थियों में मौखिक दक्षता का विकास करना।

दादी- नानी कहे कहानी ।

एक था राजा एक थी रानी ॥

प्रस्तुत पंक्तियों को साकार करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल, गांधीनगर द्वारा सितंबर महीने में ऑनलाइन “कथा पुरानी अंदाज़ नया” प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय था- दादी-नानी की कहानी - हास्यपूर्ण। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बच्चों की सम्प्रेषण क्षमता, मौखिक दक्षता तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता सुनिश्चित की गई। ‘कथा पुरानी अंदाज़ नया प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बड़े ही जोश के साथ हिस्सा लिया और बच्चों ने ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत की जो हमारे मन को सुंदर विचार दें, मस्तिष्क को कल्पना की ऊँची उड़ान दे और भावनाओं के जुड़ाव का माध्यम बनें । प्रत्येक छात्र ने नन्हे कथाकार के रूप में अपनी-अपनी प्रतिभा एवं कला को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया और प्रतियोगिता में उपस्थित सभी लोगों को भाव-विभोर किया। विद्यार्थियों ने अपनी कहानी नियत समय-सीमा में सुंदर हाव-भाव के साथ और रंगमंच की सामग्री का उपयोग कर बहुत ही कलात्मक रूप में कहानी प्रस्तुत की। प्रतिभागियों ने अनुशासन में रहकर कथारस का आनंद लिया।

हिंदी ऑनलाइन कथा पुरानी अंदाज़ नया प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार है :-

क्रमांक	प्रतिभागी का नाम	विभाग	स्थान	अंक
1	दिवा शास्त्री	ए	प्रथम	40
2	दिया शास्त्री	ए	द्वितीय	39
3	शिवांशी दुलानी	डी	द्वितीय	39
4	दिवित सिंह	जी	तृतीय	38
5	खुशी यादव	जी	तृतीय	38
6	अविका शर्मा	एच	तृतीय	38

